



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]  
No. 292]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2003/आषाढ़ 2, 1925  
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2003/ASADHA 2, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2003

**सा.का.नि. 507(अ).—** केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तों) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) अभिप्रेत है ;

(ख) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) “अध्यक्ष” से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) “सदस्य” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ;

(ड) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता :— कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत सरकार में सचिव का पद धारण करता हो और उसके पास प्रबंध, प्रशासन, विधि, वित्त और राजमार्ग इंजीनियरी से संबंधित सभी या किसी क्षेत्र में वृत्तिक ज्ञान और अनुभव हो।

4. सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता :—

(1) कोई व्यक्ति सदस्य (प्रशासन) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह—

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी स्वायत्त निकाय में नियोजित हो ; और

(ii) उसने,—

(क) 8,000-275-13,500 रुपए या तुल्य या उच्चतर वेतनमान में कम से कम 25 वर्ष तक पद धारण किया हो ; और

(ख) 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में कम से कम 3 वर्ष तक पद धारण किया हो ; और

(ग) लोक प्रशासन और प्रबंध के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष तक पद धारण किया हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन अर्हित व्यक्ति के लिए वांछनीय अर्हता निम्न प्रकार है :—

(i) प्रबंध और प्रशासन में अनुभव ; और

(ii) राजमार्ग के क्षेत्र से संबंधित प्रशासन में अनुभव।

(3) कोई व्यक्ति सदस्य (विज्ञान) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह—

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी स्वायत्त निकाय में नियोजित हो ; और

## (ii) उसने,-

- (क) 8,000-275-13,500 रुपए या तुल्य या उच्चतर वेतनमान में कम से कम 25 वर्ष तक पद धारण किया हो ; और
- (ख) 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में कम से कम 3 वर्ष तक पद धारण किया हो ; और
- (ग) वित्त और वित्तीय योजना के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष तक पद धारण किया हो ।

(4) उपनियम (3) के अधीन अर्हित व्यक्ति के लिए वांछनीय अर्हता निम्न प्रकार है,-

(i) राजमार्ग के क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, दोनों में वित्त और विनिधान प्रक्रिया, ऋण तथा अनुदान, आदि की वार्ता में अनुभव और ; और

(ii) वित्तीय प्रबंध में अनुभव ।

(5) कोई व्यक्ति सदस्य (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह-

- (i) सिविल इंजीनियरी में डिग्री रखता हो ; और
- (ii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी स्वायत्त निकाय में नियोजित हो ; और

## (iii) उसने,-

- (क) 8,000-275-13,500 रुपए या तुल्य या उच्चतर वेतनमान में कम से कम 25 वर्ष तक पद धारण किया हो ; और
- (ख) 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में कम से कम 3 वर्ष तक पद धारण किया हो ; और

(ग) राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष तक पद धारण किया हो ।

5. सदस्य की पदावधि - कोई सदस्य इस रूप में अपना पद भार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

6. निम्नलिखित अधिकारी प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :--

- (i) सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ;
- (ii) सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ;
- (iii) सचिव, योजना आयोग ; और
- (iv) महानिदेशक (सड़क विभाग) और विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ।

7. सेवा की अन्य शर्तें-- सदस्य की पदावधि और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विषय, जिनकी बाबत इन नियमों में कोई व्यक्ति उपबंध नहीं किए गए हैं, उसी प्रकार होंगे जो तुल्य वेतन अर्हित करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के किसी अधिकारी के लिए स्वीकार्य हैं ।

8. कतिपय मामलों में नियमों के उपाबंधों से शिथिलीकरण-- यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि किसी विशिष्ट मामले में इन नियमों के कार्यान्वयन से कोई असम्यक् कठिनाई कारित होती है तो वह लोकहित में और लेखबद्ध किए गए कारणों से इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी ।

9. वेतन- (i) अध्यक्ष को प्रतिमास 26,000/- रूपए (नियत) वेतन संदाय किया जाएगा ।

(ii) सदस्य को 22,400-525-24,500/- रूपए के वेतनमान में प्रतिमास वेतन संदत किया जाएगा ।

[ फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच/ए-12022/1/96-पी.आई.सी. ]

अशोक जोशी, सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2003

**G.S.R. 507(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 34 of National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement** — (1) These rules may be called the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

**2. Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires;

- (a) "Act" means the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988);
- (b) "Authority" means the National Highways Authority of India constituted under section 3 of the Act;
- (c) "Chairman" means the Chairman of the Authority;
- (d) "Member" means a member of the Authority appointed under section 3 of the Act and includes the Chairman;
- (e) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Qualification for appointment as Chairman :-** A person shall not be qualified for appointment as a Chairman unless he holds the post of a Secretary to the Government of India and possesses professional knowledge and experience in all or any of the areas pertaining to Management, Administration, Law, Finance and highway engineering.

1745 45/03-2

**4. Qualification for appointment as a Member: -**

**(1)** A person shall not be qualified for appointment as a Member (Administration) unless he -

- (i) Is employed in the Central Government or a State Government or Public Sector Undertaking or an Autonomous Body established under law for the time being in force; and
- (ii) has held the post;-
  - (a) for at least 25 years in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- or equivalent or higher; and
  - (b) for at least 3 years in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/-; and
  - (c) for at least 15 years in the field of Public Administration and Management.

**(2)** Desirable qualification for a person qualified under sub-rule (1) is as under:-

- (i) experience in management and administration; and
- (ii) experience in administration relating to the field of highways.

**(3)** A person shall not be qualified for appointment as a Member (Finance) unless he -

- (i) is employed in the Central Government or a State Government or Public Sector Undertaking or an Autonomous Body established under law for the time being in force; and
- (ii) has held the post,-
  - (a) for at least 25 years in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- or equivalent or higher; and
  - (b) for at least 3 years in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/-; and
  - (c) for at least 15 years in the field of Finance and Financial Planning.

(4) Desirable qualification for a person qualified under sub-rule (3) is as under:-

- (i) experience in finance and investment procedure, negotiation of loans and grants, etc., both from national or international institutions pertaining to the field of highways; and
- (ii) experience in Financial Management.

(5) A person shall not be qualified for appointment as a Member (Technical) unless he -

- (i) has degree in Civil Engineering; and
- (ii) is employed in the Central Government or a State Government or Public Sector Undertaking or an Autonomous Body established under law for the time being in force; and
- (iii) has held the post,-
  - (a) for at least 25 years in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- or equivalent or higher; and
  - (b) for at least 3 years in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400; and
  - (c) for at least 15 years in the field of Highway Engineering.

**5. Term of office of the Member -** A Member shall hold office as such for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of superannuation, whichever is earlier.

**6** The following officers shall be appointed as part-time Members of the Authority; namely:-

- (i) Secretary, Ministry of Road Transport and Highways;
- (ii) Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure;
- (iii) Secretary, Planning Commission; and
- (iv) Director General (Road Development) and Special Secretary, Ministry of Road Transport and Highways.

**7. Other conditions of services** - Matters relating to the terms and other conditions of service of the Member, with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

**8. Relaxation of provision of rules in certain cases** - When the Central Government is satisfied that operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, it may in the public interest and for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules.

**9. Salaries-** (i) The Chairman shall be paid a salary of Rs. 26,000/- (fixed) per Month.

(ii) The Member shall be paid a salary of Rs. 22,400-525-24,500/- per month.

[F. No. RW/NH/A-12022/1/96-PIC]

ASHOKE JOSHI, Secy.